

# Rev

## Chapter 1

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἦν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς  
प्रकाशितवाक्य यीशु ख्रीस्तोस-का, जो दिया उसे - परमेश्वर-ने, दिखाने-के-लिए -  
[G0602](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3739](#) [G1325](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1166](#) [G3588](#)

δούλους αὐτοῦ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. καὶ ἐσήμανεν, ἀποστείλας  
दासों-को अपने, जो होना-चाहिए होना में शीघ्र। और प्रकट-किया, भेजकर  
[G1401](#) [G0846](#) [G3739](#) [G1163](#) [G1096](#) [G1722](#) [G5034](#) [G2532](#) [G4591](#) [G0649](#)

διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ, τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἰωάννη,  
द्वारा - स्वर्गदूत-के अपने, - दास-को अपने, यूहन्ना,  
[G1223](#) [G3588](#) [G0032](#) [G0846](#) [G3588](#) [G1401](#) [G0846](#) [G2491](#)

| यह यीशु मसीह का दैवी-सन्देश है जो उसे परमेश्वर द्वारा इसलिए दिया गया था कि जो बातें शीघ्र ही घटने वाली हैं, उन्हें अपने दासों को दर्शा दिया जाए। अपना स्वर्गदूत भेजकर यीशु मसीह ने इसे अपने सेवक यूहन्ना को संकेत द्वारा बताया।

2 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ  
जिसने गवाही-दी - वचन-की - परमेश्वर-के, और - गवाही-की यीशु  
[G3739](#) [G3140](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3141](#) [G2424](#)

Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν.  
ख्रीस्तोस-की, जितना देखा।  
[G5547](#) [G3745](#) [G3708](#)

| यूहन्ना ने जो कुछ देखा था, उसके बारे में बताया। यह वह सत्य है जिसे उसे यीशु मसीह ने बताया था। यह वह सन्देश है जो परमेश्वर की ओर से है।

3 Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς  
धन्य - पढ़ने-वाला, और - सुनने-वाले - वचनों-को -  
[G3107](#) [G3588](#) [G0314](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0191](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#)

προφητείας, καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα; ὁ γὰρ καιρὸς  
भविष्यवाणी-की, और मानने-वाले - में उसमें लिखी; - क्योंकि समय  
[G4394](#) [G2532](#) [G5083](#) [G3588](#) [G1722](#) [G0846](#) [G1125](#) [G3588](#) [G1063](#) [G2540](#)

ἐγγύς.  
निकट।  
[G1451](#)

| वे धन्य हैं जो परमेश्वर के इस दैवी सुसन्देश के शब्दों को सुनते हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं, उन पर चलते हैं। क्योंकि संकट की घड़ी निकट है।

4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτά ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ: χάρις ὑμῖν καὶ  
यूहन्ना - सात कलीसियाओं-को - में - आसिया: अनुग्रह तुम्हें और  
[G2491](#) [G3588](#) [G2033](#) [G1577](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#) [G0773](#) [G5485](#) [G4771](#) [G2532](#)

εἰρήνην, ἀπὸ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος; καὶ ἀπὸ τῶν  
शांति, से- - जो-है और - जो-था और - जो-आने-वाला; और से- -  
[G1515](#) [G0575](#) [G3588](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2064](#) [G2532](#) [G0575](#) [G3588](#)

ἑπτά Πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ;  
सात आत्माओं, जो सामने - सिंहासन-के उसके;  
[G2033](#) [G4151](#) [G3739](#) [G1799](#) [G3588](#) [G2362](#) [G0846](#)

| यूहन्ना की ओर से एशिया प्रान्त में स्थित सात कलीसियाओं के नाम: उस परमेश्वर की ओर से जो वर्तमान है, जो सदा-सदा से था और जो आनेवाला है, उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं

5	καὶ	ἀπὸ	Ἰησοῦ	Χριστοῦ,	ὁ	μάρτυς	ὁ	πιστός,	ὁ	πρωτότοκος	τῶν
	और	से-	यीशु	ख्रीस्तोस,	-	साक्षी	-	विश्वासयोग्य,	-	पहलौठा	-
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G0575</a>	<a href="#">G2424</a>	<a href="#">G5547</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3144</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4103</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4416</a>	<a href="#">G3588</a>
	νεκρῶν.	καὶ	ὁ	ἄρχων	τῶν	βασιλέων	τῆς	γῆς.	Τῷ	ἀγαπῶντι	ἡμᾶς,
	मृतकों-का।	और	-	शासक	-	राजाओं-का	-	पृथ्वी-के।	-	प्रेम-करने-वाले-को	हमसे,
	<a href="#">G3498</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0758</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0935</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1093</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0025</a>	<a href="#">G1473</a>
	καὶ	λύσαντι	ἡμᾶς	ἐκ	τῶν	ἀμαρτιῶν	ἡμῶν,	ἐν	τῷ	αἵματι	αὐτοῦ,
	और	छुड़ाने-वाले-को	हमें	से-	-	पापों-से	हमारे,	में	-	लहू-से	अपने,
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3089</a>	<a href="#">G1473</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0266</a>	<a href="#">G1473</a>	<a href="#">G1722</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0129</a>	<a href="#">G0846</a>

एवं उस यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासपूर्ण साक्षी, मरे हुएों में से पहला जी उठने वाला तथा धरती के राजाओं का भी राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। वह जो हमसे प्रेम करता है तथा जिसने अपने लहू से हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया है।

6	καὶ	ἐποίησεν	ἡμᾶς	βασίλειαν,	ἱερεῖς	τῷ	Θεῷ	καὶ	Πατρὶ	αὐτοῦ:	αὐτῷ
	और	बनाया	हमें	राज्य,	याजक	-	परमेश्वर	और	पिता-के-लिए	अपने:	उसे
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G4160</a>	<a href="#">G1473</a>	<a href="#">G0932</a>	<a href="#">G2409</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2316</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3962</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G0846</a>
	ἢ	δόξα,	καὶ	τὸ	κράτος	εἰς	τοὺς	αἰῶνας	τῶν	αἰώνων.	ἀμήν.
	-	महिमा,	और	-	सामर्थ्य	में	-	युगों	-	युगों-के।	आमीन।
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1391</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2904</a>	<a href="#">G1519</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0165</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0165</a>	<a href="#">G0281</a>

उसने हमें एक राज्य तथा अपने परम पिता परमेश्वर की सेवा में याजक होने को रचा। उसकी महिमा और सामर्थ्य सदा-सर्वदा होती रहे। आमीन!

7	Ἴδου,	ἔρχεται	μετὰ	τῶν	νεφελῶν,	καὶ	ὄψεται	αὐτὸν	παῖς	ὀφθαλμῶν,	καὶ
	देखो,	आता-है	साथ	-	बादलों-के,	और	देखेगी	उसे	हर	आँख,	और
	<a href="#">G3708</a>	<a href="#">G2064</a>	<a href="#">G3326</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3507</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3708</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G3956</a>	<a href="#">G3788</a>	<a href="#">G2532</a>
	οἵτινες	αὐτὸν	ἐξεκέντησαν,	καὶ	κόψονται	ἐπ’	αὐτὸν	παῖσαι	αἱ	φυλαὶ	τῆς
	जिन्होंने	उसे	बेधा,	और	विलाप-करेंगे	पर	उसके	सब	-	जातियां	-
	<a href="#">G3748</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G1574</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G2875</a>	<a href="#">G1909</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G3956</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5443</a>	<a href="#">G3588</a>
	γῆς.	ναί,	ἀμήν.								
	पृथ्वी-की।	हां,	आमीन।								
	<a href="#">G1093</a>	<a href="#">G3483</a>	<a href="#">G0281</a>								

देखो, मेघों के साथ मसीह आ रहा है। हर एक आँख उसका दर्शन करेगी। उनमें वे भी होंगे, जिन्होंने उसे बेधा था। तथा धरती के सभी लोग उसके कारण विलाप करेंगे। हाँ! हाँ निश्चयपूर्वक ऐसा ही हो-आमीन!

8	Ἐγώ	εἰμι	τὸ	Ἄλφα	καὶ	τὸ	ᾠ,	{ἀρχὴ	καὶ	τέλος}	λέγει	Κύριος
	मैं	हूँ	-	अल्फा	और	-	ओमेगा,	{आदि	और	अंत}	कहता-है	प्रभु
	<a href="#">G1473</a>	<a href="#">G1510</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0001</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5598</a>	<a href="#">G0746</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G5056</a>	<a href="#">G3004</a>	<a href="#">G2962</a>
	ὁ	Θεός,	ὁ	ὢν,	καὶ	ὁ	ἦν,	καὶ	ὁ	ἐρχόμενος,	ὁ	
	-	परमेश्वर,	-	जो-है,	और	-	जो-था,	और	-	जो-आने-वाला,	-	
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2316</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1510</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1510</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2064</a>	<a href="#">G3588</a>	
	Παντοκράτωρ.											
	सर्वशक्तिमान।											
	<a href="#">G3841</a>											

प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आनेवाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, "मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ।"

- 9 Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει, καὶ  
 मैं यूहन्ना, - भाई तुम्हारा, और सहभागी में - क्लेश, और  
[G1473](#) [G2491](#) [G3588](#) [G0080](#) [G4771](#) [G2532](#) [G4791](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2347](#) [G2532](#)
- βασιλεία, καὶ ὑπομονῆ, ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ  
 राज्य, और धीरज, में यीशु, था मैं - द्वीप - कहलाता  
[G0932](#) [G2532](#) [G5281](#) [G1722](#) [G2424](#) [G1096](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3520](#) [G3588](#) [G2564](#)
- Πάτμος, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.  
 पतमुस, के-कारण - वचन-के - परमेश्वर-के, और - गवाही-के यीशु।  
[G3963](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3141](#) [G2424](#)

मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई हूँ और यातनाओं, राज्य तथा यीशु में, धैर्यपूर्ण सहनशीलता में तुम्हारा साक्षी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की साक्षी के कारण मुझे पतमुस नाम के द्वीप में देश निकाला दे दिया गया था।

- 10 ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου  
 हुआ मैं आत्मा में - प्रभु-के दिन, और सुनी पीछे मेरे  
[G1096](#) [G1722](#) [G4151](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2960](#) [G2250](#) [G2532](#) [G0191](#) [G3694](#) [G1473](#)
- φωνὴν μεγάλην, ὡς σάλπιγγος,  
 आवाज बड़ी, जैसे तुरही,  
[G5456](#) [G3173](#) [G5613](#) [G4536](#)

प्रभु के दिन मैं आत्मा के वशीभूत हो उठा और मैंने अपने पीछे तुरही की सी एक तीव्र आवाज़ सुनी।

- 11 λεγούσης, Ἐγὼ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω ὁ πρῶτος καὶ ὁ  
 कहती, {मैं हूँ - अल्फा और - ओमेगा - पहला और -  
[G3004](#) [G1473](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0001](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5598](#) [G3588](#) [G4413](#) [G2532](#) [G3588](#)
- ἔσχατος; καὶ}, Ὃ βλέπει γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον ταῖς ἑπτά  
 अंतिम; और}, जो देखता-है लिख में पुस्तक, और भेज - सात  
[G2078](#) [G2532](#) [G3739](#) [G0991](#) [G1125](#) [G1519](#) [G0975](#) [G2532](#) [G3992](#) [G3588](#) [G2033](#)
- ἐκκλησίαις: εἰς Ἔφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς  
 कलीसियाओं: में इफिसुस, और में स्मरना, और में पिरगमुन, और में  
[G1577](#) [G1519](#) [G2181](#) [G2532](#) [G1519](#) [G4667](#) [G2532](#) [G1519](#) [G4010](#) [G2532](#) [G1519](#)
- Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν.  
 थुआतीरा, और में सरदीस, और में फिलदिलफिया, और में लौदीकिया।  
[G2363](#) [G2532](#) [G1519](#) [G4554](#) [G2532](#) [G1519](#) [G5359](#) [G2532](#) [G1519](#) [G2993](#)

वह कह रही थी, “जो कुछ तू देख रहा है, उसे एक पुस्तक में लिखता जा और फिर उसे इफिसुस, स्मरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलादेलफिया और लौदीकिया की सातों कलीसियाओं को भेज दे।”

- 12 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἣτις ἐλάλει μετ' ἐμοῦ. καὶ  
 और मुड़ा देखने-के-लिए - आवाज-को जो बोल-रही-थी साथ मेरे। और  
[G2532](#) [G1994](#) [G0991](#) [G3588](#) [G5456](#) [G3748](#) [G2980](#) [G3326](#) [G1473](#) [G2532](#)
- ἐπιστρέψας, εἶδον ἑπτά λυχνίας χρυσοῦς,  
 मुड़कर, देखा सात दीवट सोने-के,  
[G1994](#) [G3708](#) [G2033](#) [G3087](#) [G5552](#)

फिर यह देखने को कि वह आवाज़ किसकी है जो मुझसे बोल रही थी, मैं मुड़ा। और जब मैं मुड़ा तो मैंने सोने के सात दीपाधार देखे।

- 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν, ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον  
 और में बीच - दीवटों-के, समान पुत्र मनुष्य-के, पहना-हुआ  
[G2532](#) [G1722](#) [G3319](#) [G3588](#) [G3087](#) [G3664](#) [G5207](#) [G0444](#) [G1746](#)
- ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς, ζώνην χρυσοῦν.  
 पांव-तक-का-वस्त्र, और बंधा-हुआ पर - छाती, पटुका सोने-का।  
[G4158](#) [G2532](#) [G4024](#) [G4314](#) [G3588](#) [G3149](#) [G2223](#) [G5552](#)

और उन दीपाधारों के बीच मैंने एक व्यक्ति को देखा जो “मनुष्य के पुत्र” के जैसा कोई पुरुष था। उसने अपने पैरों तक लम्बा चोगा पहन रखा था। तथा उसकी छाती पर एक सुनहरा पटका लिपटा हुआ था।

14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαί, ὡς ἔριον, λευκὸν ὡς  
- और सिर उसका और - बाल सफेद, जैसे ऊन, सफेद जैसे  
[G3588](#) [G1161](#) [G2776](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2359](#) [G3022](#) [G5613](#) [G2053](#) [G3022](#) [G5613](#)

χιῶν; καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλόξ πυρός;  
हिम; और - आंखें उसकी जैसे ज्वाला आग-की;  
[G5510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3788](#) [G0846](#) [G5613](#) [G5395](#) [G4442](#)

उसके सिर तथा केश सफेद ऊन जैसे उजले थे। तथा उसके नेत्र अग्नि की चमचमाती लपटों के समान थे।

15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης;  
और - पांव उसके समान चमकीले-पीतल, जैसे में भट्टी तपाया;  
[G2532](#) [G3588](#) [G4228](#) [G0846](#) [G3664](#) [G5474](#) [G5613](#) [G1722](#) [G2575](#) [G4448](#)

καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ, ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν;  
और - आवाज उसकी, जैसे आवाज जल-की बहुत;  
[G2532](#) [G3588](#) [G5456](#) [G0846](#) [G5613](#) [G5456](#) [G5204](#) [G4183](#)

उसके चरण भट्टी में अभी-अभी तपाए गए उत्तम काँसे के समान चमक रहे थे। उसका स्वर अनेक जलधाराओं के गर्जन के समान था।

16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ, ἀστέρας ἑπτὰ, καὶ ἕκ τοῦ  
और रखे-हुए में - दाहिने हाथ अपने, तारे सात, और से-  
[G2532](#) [G2192](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1188](#) [G5495](#) [G0846](#) [G0792](#) [G2033](#) [G2532](#) [G1537](#) [G3588](#)

στόματος αὐτοῦ, ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα, ἐκπορευομένη; καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ,  
मुंह-से उसके, तलवार दोधारी तेज, निकलती; और - मुख उसका,  
[G4750](#) [G0846](#) [G4501](#) [G1366](#) [G3691](#) [G1607](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3799](#) [G0846](#)

ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.  
जैसे - सूर्य चमकता-है में - सामर्थ्य अपनी।  
[G5613](#) [G3588](#) [G2246](#) [G5316](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1411](#) [G0846](#)

तथा उसने अपने दाहिने हाथ में सात तारे लिए हुए थे। उसके मुख से एक तेज दोधारी तलवार बाहर निकल रही थी। उसकी छवि तीव्रतम दमकते सूर्य के समान उज्वल थी।

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπαεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, ὡς νεκρός. καὶ  
और जब देखा उसे, गिरा पर - पांवों उसके, जैसे मृत। और  
[G2532](#) [G3753](#) [G3708](#) [G0846](#) [G4098](#) [G4314](#) [G3588](#) [G4228](#) [G0846](#) [G5613](#) [G3498](#) [G2532](#)

ἔθιγεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ, λέγων Μὴ φοβοῦ; ἐγὼ εἶμι ὁ  
रखा - दाहिना अपना पर मुझे, कहते-हुए मत डर; मैं हूँ -  
[G5087](#) [G3588](#) [G1188](#) [G0846](#) [G1909](#) [G1473](#) [G3004](#) [G3361](#) [G5399](#) [G1473](#) [G1510](#) [G3588](#)

πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος;  
पहला और - अंतिम;  
[G4413](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2078](#)

मैंने जब उसे देखा तो मैं उसके चरणों पर मरे हुए के समान गिर पड़ा। फिर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, “डर मत, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम भी हूँ।”

18 καὶ ὁ ζῶν. καὶ ἐγενόμην νεκρὸς, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς  
और - जीवित। और था मृत, और देखो जीवित हूँ में -  
[G2532](#) [G3588](#) [G2198](#) [G2532](#) [G1096](#) [G3498](#) [G2532](#) [G3708](#) [G2198](#) [G1510](#) [G1519](#) [G3588](#)

αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου. καὶ τοῦ  
युगों - युगों-के, और रखता-हूँ - कुंजियां - मृत्यु-की। और -  
[G0165](#) [G3588](#) [G0165](#) [G2532](#) [G2192](#) [G3588](#) [G2807](#) [G3588](#) [G2288](#) [G2532](#) [G3588](#)

ἄδου.

अधोलोक-की।

[G0086](#)

| और मैं ही वह हूँ, जो जीवित है। मैं मर गया था, किन्तु देख, अब मैं सदा-सर्वदा के लिए जीवित हूँ। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं।

19 γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἃ εἰσὶν, καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ  
लिख तो जो देखा, और जो हैं, और जो होने-वाली होने बाद  
[G1125](#) [G3767](#) [G3739](#) [G3708](#) [G2532](#) [G3739](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3739](#) [G3195](#) [G1096](#) [G3326](#)

ταῦτα.

इनके।

[G3778](#)

| सो जो कुछ तूने देखा है, जो कुछ घट रहा है, और जो भविष्य में घटने जा रहा है, उसे लिखता जा।

20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων, οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ  
- रहस्य - सात तारों-का, जिन्हें देखा पर - दाहिने मेरे, और  
[G3588](#) [G3466](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0792](#) [G3739](#) [G3708](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1188](#) [G1473](#) [G2532](#)

τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσαῖς: οἱ ἑπτὰ ἀστέρες, ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ  
- सात दीवट - सोने-के: - सात तारे, स्वर्गदूत - सात  
[G3588](#) [G2033](#) [G3087](#) [G3588](#) [G5552](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0792](#) [G0032](#) [G3588](#) [G2033](#)

ἐκκλησιῶν εἰσὶν; καὶ αἱ λυχνίαί αἱ ἑπτὰ, ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσὶν.  
कलीसियाओं-के हैं; और - दीवट - सात, सात कलीसियाएँ हैं।  
[G1577](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3087](#) [G3588](#) [G2033](#) [G2033](#) [G1577](#) [G1510](#)

| ये जो सात तारे हैं जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा है और ये जो सात दीपाधार हैं, इनका रहस्यपूर्ण अर्थ है: ये सात तारे सात कलीसियाओं के दूत हैं तथा ये सात दीपाधार सात कलीसियाएँ हैं।